

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Agreement, words and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the employer to the Contractor as hereinafter Mentioned the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and remedy and defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying the defects wherein the Contract Price of such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the time and in the manner prescribed by the Contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, via:
 - i) Letter of Agreement:
 - ii) Notice to Proceed with the works:
 - iii) Contractor's Bid:
 - iv) Contract Data:
 - v) Special Conditions of contract and general Conditions of Contract:
 - vi) Specifications:
 - vii) Drawings:
 - viii) Bill of Quantities: and
 - ix) Any other document listed in the Contract Data as forming part of the contract in witness Whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the year first Before written.

The Common Seal of


Was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the said

..... In the presence of:

Binding Signature of Employer

Binding Signature of Contractor



कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल
काठमाडौं

Name of Agency:- SHRI KHURSHID ALAM, AT-BHERIHARI, MURLI PURANI TOLA, WARD NO-1, DIST-WEST CHAMPARAN,

Name of Work: "T03 to Dharmapur (VR26)." Under MR-3054 (New Maint. Policy-2018, Scheme)

Agreement no.

Rate approved by SE. Anand Kumar Gole Belhara

Letter No. 297 Date 29.3.23

Agreement value :- 1590628.00 (GST Claim Amount)

Date of work order :-

Time of Completion :-

Performance Security :-

Additional Performance Guarantee :-

Security Deduct from bill :- 10%.

No of Items :-

Rate :-

KAD

2/5/23

2/5/23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल
बनारस



बिहार सरकार

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया

Email ID- se.betia.rwd@gmail.com

पत्रांक-297

/बेतिया, दिनांक-29/03/2025।

प्रेषक,

ई0 अशोक कुमार श्रीवास्तव,
अधीक्षण अभियन्ता,

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज।

विषय :- शीर्ष MR-3054 योजनान्तर्गत Construction of road from 3054 T03 to Dharampur में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग: - अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा के पत्रांक-RWD/GST/CLAIM/2024-25/773-1181अनु0 पटना/ दिनांक-26.03.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषयांकित कार्य में जी0एस0टी0 की राशि की प्रतिपूर्ति जो जांचोपरान्त रू0 15,90,628/- मात्र होती है, के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/जमानत की राशि से समायोजित कर ली जाय।

विश्वासमाजन

(ई0 अशोक कुमार श्रीवास्तव)

अधीक्षण अभियन्ता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया।

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना
-1181 (अनु०)

पटना / दिनांक:- 26.03.2025

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/2024-25/773 -1181

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, गा0प्र0310

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,
29-03-2025

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-वेतिया।

विषय : MR-3054 योजनान्तर्गत Construction of road from 3054 T03 to Dharampur
में जी0एस0टी0 दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-नरकटियागंज का पत्रांक-1008 अनु०, दिनांक-20.05.2024
महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि
रु 15,90,628/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर
विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि
रु 15,90,628/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं
परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित
योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं है।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित
राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर
लिया गया है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

पटना / दिनांक:- 26.03.2025

ज्ञापक- RWD/GST CLAIM/2024-25/773 -1181

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-नरकटियागंज को
सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की
दिनांक - 18/3/23 को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :-MR-3054 योजनान्तर्गत Construction of Road from 3054 T03 to
Dharampur एकरारनामा संख्या 59/22-23 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के
संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज का पत्रांक 1008 दिनांक 20.05.2024

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
नरकटियागंज द्वारा विषयांकित पथ में रु० 15,90,628/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच
हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में
विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु.
15,90,628/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 59/22-23 विषयांकित कार्य Construction of Road from 3054 T03
to Dharampur के लिए दावे की राशि रु. 15,90,628/- रुपये मात्र संवेदक खुर्शीद आलम को
भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
18/3/23
विभागीय GST Consultant

Shyam Singh
18/3/23
सहायक वित्त प्रबंधक

Prabhu Singh
18/3/23
वित्त प्रबंधक

[Signature]
18/3/23
GST नोडल पदाधिकारी

[Handwritten mark]

SKKSS & Co

(26)
Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

13.02.2025

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re. Submission of GST Impact Report of M/s Khurshid Alam vide agreement
no. 59/ 22-23.

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department. vide
agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and
EE, Narkatiyaganj, RWD letter no. 1008 dated 20.05.2024

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of GST Impact by analysing claim of
contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact (in ₹)
59/22-23	Construction of Road from 3054 T03 to Dharampur	16,67,985 (Annexure-1)



DARIYAPUR GOLA ROAD,
HALA ROAD, PATNA - 800004

SKKSS & Co

Tel : +91 9263374200
Email- rwdgst@gmail.com

That the GST Impact calculation is made on the following premise:

- That the above work is a Construction of Road from 3054 T03 to Dharampur.
- That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18/07/2022 GST@18% is payable.
- That we have analysed the embedded taxes in the contract provided to us and the differential tax is computed. The contractor has claimed Rs. 15,90,628/- which is within the differential tax amount to be paid. Therefore, we recommend the payment of Rs. 15,90,628/-
- That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

Shweta Singh
13/2/25

Authorized Signatory
Enclosed: -



GST claim computation

DARIYAPUR GOLA ROAD,
NALA ROAD, PATNA - 800004

[Handwritten signature]

M/S. KIURSHID ALAM					
Agreement No: 597223					
Construction of Road from 3054 to 3 in Huzarapur					
Sl. No	RA Bill No.	Date of payment	Payment as per Payment Certificate / Bill (A)	Embedded GST (B)	GST paid as per GSTR 3B (C)
1	1	08.09.23	2,00,13,878		36,02,498
2	2	01.11.23	85,10,132		15,31,824
3	3	29.11.23	10,60,000	31,81,258	1,90,800
4	4	13.03.24	5,37,483		96,747
TOTAL				36,81,258	53,25,122
					48,49,242
					16,67,985
					16,67,985

Computation of Embedded taxes		
Particulars	Amount	GST embedded in total work done (%)
Total Work Done Value excluding taxes, cess etc (RA 04)	2,97,87,036	
GST @ 12%	35,74,447	10.5614%
LWC @ 1%	2,97,871	
SF	1,85,000	
Work Done Value including taxes, cess and fees	3,38,44,373	
Work Done Value including taxes, cess and fees (11% below)	3,01,21,493	
Total Payment made	3,01,21,493	
Embedded tax from RA Bill 01 to RA Bill 04	31,81,258	

Disclaimer :
The above Statement has been prepared on the basis of documents submitted by the Contractor

[Signature]



Name of Contractor: M/S KHURSHID ALAM

GST Reconciliation Statement

Month	Division	Gross Taxable Value	CGST	SGST	Total Tax	Input Tax	Output Tax	Net Tax	CGST	SGST	Total Tax
April	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	311,218.00	8,112.00	8,112.00	16,224.00	8,112.00	16,224.00	0.00	8,112.00	8,112.00	16,224.00
May	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	314,481.00	8,140.00	8,140.00	16,280.00	8,140.00	16,280.00	0.00	8,140.00	8,140.00	16,280.00
June	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	19,416,235.00	194,162.00	194,162.00	388,324.00	194,162.00	388,324.00	0.00	194,162.00	194,162.00	388,324.00
July	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	1,076,525.00	10,765.00	10,765.00	21,530.00	10,765.00	21,530.00	0.00	10,765.00	10,765.00	21,530.00
August	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	20,346,715.00	203,467.00	203,467.00	406,934.00	203,467.00	406,934.00	0.00	203,467.00	203,467.00	406,934.00
September	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	1,720,049.00	17,200.00	17,200.00	34,400.00	17,200.00	34,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	34,400.00
October	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)										
November	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	34,881,062.00	348,810.00	348,810.00	697,620.00	348,810.00	697,620.00	0.00	348,810.00	348,810.00	697,620.00
December	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	653,368.00	6,534.00	6,534.00	13,068.00	6,534.00	13,068.00	0.00	6,534.00	6,534.00	13,068.00
January	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	116,414.00	1,164.00	1,164.00	2,328.00	1,164.00	2,328.00	0.00	1,164.00	1,164.00	2,328.00
February	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	12,797,722.00	127,977.00	127,977.00	255,954.00	127,977.00	255,954.00	0.00	127,977.00	127,977.00	255,954.00
March	RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION NARLA (TIRAGANI)	105,552,319.00	1,055,523.00	1,055,523.00	2,111,046.00	1,055,523.00	2,111,046.00	0.00	1,055,523.00	1,055,523.00	2,111,046.00
TOTAL											

There is a short payment in the month of September 2023 & November 2023. However, at the end of the year taxable value of GSTN 7A is equal to taxable value of GSTN 3B. Hence, all taxes are paid on gross basis at the year end @ 9%.

Note 1:
Note 2:



[Handwritten signature]